

जीपीआर सर्वे में पटना सट्टी में प्राचीन पाटलपुत्र के अवशेष मलिन के संकेत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने प्राचीन पाटलपुत्र के अवशेष की खोज करने के लिये ग्राउंड पेंट्रेटिंग राडर (जीपीआर) से सर्वे शुरू करवाया है। जिसमें प्राचीन पाटलपुत्र के अवशेष मलिन के संकेत मलि रहे हैं।

प्रमुख बदि

- जीपीआर सर्वे वर्तमान गुलजारबाग के इरद-गरिद के कषेत्रों में आईआईटी कानपुर की टीम के द्वारा कथि जा रहा है। इस टीम ने बताया कि गुलजारबाग के इरद- गरिद 490 बीसी-180 बीसी के बीच की ईट की दीवार के संकेत मलि रहे हैं।
- इस सर्वे में 80 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के नीचे अवशेष मलिन के संकेत मलि रहे हैं, जो अलग-अलग डायरेक्शन में हैं। इसमें बेगम की हवेली और बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के नीचे भी अवशेष के संकेत मलि रहे हैं।
- दरअसल आर्कलोजीकल उत्खनन से पहले जीपीआर सर्वे में ऐतहासिक अवशेष के सांकेतिक सग्लिन मलिता है। इसी संकेत के आधार पर आर्कलोजीकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्खनन करता है।
- सर्वे में लगी टीम के अनुसार बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान के एक मीटर नीचे मल्टीस्ट्रक्चर अवशेष के संकेत मलि रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें, तो एक ऐसी टनल का साक्ष्य मलि रहा है, जो गंगा नदी की तरफ जाती होगी। इस सर्वे के 3डी प्रोफाइल में मौर्यकाल के एक मीटर से लेकर तीन मीटर तक के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं।
- गौरतलब है कि जीपीआर एक भू-भौतिकीय वधि है, जो सतह की छवि के लिये रडार का उपयोग करती है। यह पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों जैसी भूमिगत उपयोगिताओं की जाँच करने के लिये उप सतह का सर्वेक्षण करने का एक तरीका है। सर्वे की इस अत्याधुनिक तकनीक से बिना खुदाई कराए ज़मीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियाँ आसानी से मलि जाती हैं। महत्त्वपूर्ण जगहें, जहाँ ऐतहासिक धरोहरें दबी हो सकती हैं, वहाँ की खुदाई में इनके नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है, लेकिन इस सर्वे में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है।